

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 15, 2015/पौष 25, 1936

No. 100]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 2015 /PAUSA 25, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2015

का. आ.160(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि एलपीजी परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मंगलूर-हासन-मैसूर-सोलूर पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन कुनिगल तालूका, तुमकूर जिला, कर्नाटक राज्य में बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित हैं और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिस दिन इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी और विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, मंगलूर - हासन - मैसूर - सोलूर एलपीजी पाइपलाइन परियोजना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम, नं-998, रास्ता नं-39, नया के हेच बि लेआउट, नया बस स्टैंड के सामने, हासन - 573201, कर्नाटक को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तालूका : कुनिगल		जिला : तुमकूर	राज्य : कर्नाटक	
क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल	
			एकड़	गुन्टा
1	2	3	4	5
1	1. चिक्कमदुरे	30/2	0	01
2		30/4	0	01
3		3/2	0	01
4		5/3A	0	01
5		9	0	05
6		10/2	0	04
7		106/5	0	01
8		106/6	0	03
9		106/7	0	01
10		106/8	0	02
11		85/2	0	02
12		99/2	0	02
13		98/2	0	03
14	2. दोड्डमदुरे	117/3	0	01
15		117/5B	0	01
16		122	0	04
17		120/3	0	02
18	3. गोटीकेरे	10/2	0	01
19		11/1B	0	01
20		14/1	0	01
21		16/5	0	01
22		17/2	0	01
23		17/3	0	06
24		17	0	39
25	4. शेषापुरा	24/7	0	10
26		24/6	0	01
27	5. जलदिगेरे	24	0	02
28		25/1	0	02
29		25/2	0	01
30		25/3	0	01
31		26/3	0	01
32		28/1	0	01
33		37/3	0	01
34		35/1	0	03
35		35/2	0	03
36		33/1	0	02
37		32/4B	0	06
36		127/4	0	06
39		127/5B	0	01
40		127/2A	0	01

41		100/23A	0	04
42		100/24	0	01
43		100/25	0	04
44		100/26	0	01
45		99	0	01
46		98/1	0	01
47		98/23	0	01
48		81/1	0	01
49	6. चाक्केनहल्ली	77/1A	0	01
50		77/1B	0	01
51		77/2	0	02
52		79/4	0	02
53		79/13	0	01
54		79/7	0	02
55		79/8	0	02
56		79/14	0	01
57		4/1	0	03
58		4/8	0	09
59		4/9	0	01
60		4/4	0	01
61		7/1B	0	03
62		8/1A	0	04
63		8/4A	0	04
64		8/4B	0	06
65		8/5	0	01
66		12/6	0	06
67		42/10	0	01
68		42/9	0	04
69		42/8	0	02
70		42/11	0	02
71		42/12A	0	01
72		42/13	0	02
73		42/36	0	01
74		48/7A	0	02

[फा. सं. आर-31015/12/2013-ओआर-II]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2015

S. O. 160 (E).— Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of LPG, Mangalore Hassan Mysore Solur Pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid at Kunigal Taluk, Tumkur District in Karnataka State, which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to The Competent Authority & SLAO, Mangalore-Hassan-Mysore-Solur LPG Pipeline Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Government of India Enterprises, No. 998, 39th Road, New K H B Layout, Opposite New Bus stand, Hassan - 573 201, Karnataka.

SCHEDULE

Taluk : Kunigal					District : Tumkur		State : Karnataka	
Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Area					
			Acres	Guntas				
1	2	3	4	5				
1	1.Chikkamadhure	30/2	0	01				
2		30/4	0	01				
3		3/2	0	01				
4		5/3A	0	01				
5		9	0	05				
6		10/2	0	04				
7		106/5	0	01				
8		106/6	0	03				
9		106/7	0	01				
10		106/8	0	02				
11		85/2	0	02				
12		99/2	0	02				
13		98/2	0	03				
14	2.Doddamadhure	117/3	0	01				
15		117/5B	0	01				
16		122	0	04				
17		120/3	0	02				
18	3. Gottikere	10/2	0	01				
19		11/1B	0	01				
20		14/1	0	01				

21		16/5	0	01
22		17/2	0	01
23		17/3	0	06
24		17	0	39
25	4. Sheshapura	24/7	0	10
26		24/6	0	01
27	5. Jaladigere	24	0	02
28		25/1	0	02
29		25/2	0	01
30		25/3	0	01
31		26/3	0	01
32		28/1	0	01
33		37/3	0	01
34		35/1	0	03
35		35/2	0	03
36		33/1	0	02
37		32/4B	0	06
38		127/4	0	06
39		127/5B	0	01
40		127/2A	0	01
41		100/23A	0	04
42		100/24	0	01
43		100/25	0	04
44		100/26	0	01
45		99	0	01
46		98/1	0	01
47		98/23	0	01
48		81/1	0	01
49	6. Chakenahalli	77/1A	0	01
50		77/1B	0	01
51		77/2	0	02
52		79/4	0	02
53		79/13	0	01
54		79/7	0	02
55		79/8	0	02
56		79/14	0	01
57		4/1	0	03
58		4/8	0	09
59		4/9	0	01

60		4/4	0	01
61		7/1B	0	03
62		8/1A	0	04
63		8/4A	0	04
64		8/4B	0	06
65		8/5	0	01
66		12/6	0	06
67		42/10	0	01
68		42/9	0	04
69		42/8	0	02
70		42/11	0	02
71		42/12A	0	01
72		42/13	0	02
73		42/36	0	01
74		48/7A	0	02

[F. No. R-31015/12/2013-OR-II]

PAWAN KUMAR, Under Secy .